

Name of course: Core CBCS

Scheme/Mode of Examination: CBCS Semester –III

Name of the Paper: Statistical Methods for Economics

UPC/Subject Code: 12271303

Duration: 3 Hrs.

Maximum Marks: 75

*Instructions:* Answer any four questions. All questions carry equal marks. Answers may be written either in English or in Hindi but the same medium should be used throughout the paper. The use of a simple non-programmable calculator is allowed. Statistical tables are attached for your reference. In all calculations, figures should be rounded to two decimal places.

**निर्देश:** किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें। सभी प्रश्नों के समान अंक हैं। उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे जा सकते हैं लेकिन पूरे पेपर में एक ही माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए। एक साधारण गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति है। सांख्यिकीय टेबल आपके संदर्भ के लिए संलग्न हैं। सभी गणनाओं में, आंकड़ों को दो दशमलव स्थानों पर गोल किया जाना चाहिए।

- Q1    i) A consignment of 7 refrigerator sets contains 5 sets with no scratch on them. A hotel makes a random purchase of 3 of the sets. If  $X$  is the number of refrigerator sets purchased with a scratch on it,
- Find the probability distribution of  $X$ .
  - Find the Cumulative Distribution Function (CDF) of  $X$ .
  - Construct a graph of the CDF.
  - Using CDF, find  $P(0 < X \leq 2)$
- ii) a) Suppose Let  $X$  denote the proportion of time in a day that a randomly selected student spends on a smart phone. Suppose the probability density function of  $X$  is

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} \quad -1 < \theta$$

A random sample of 5 students is taken with the following observation,

0.34, 0.40, 0.12, 0.55 and 0.01.

Use the method of moments to obtain an estimator of  $\theta$  and then compute the estimate of this data

- b) If U and V are two independent standard normal random variables and  $Z=0.6U+0.8V$ . Determine  $\text{Corr}(U, Z)$
- iii) On the basis of a survey of 25 random typists, a confidence interval for the mean time needed to complete typing a page was (5.588; 6.412). Knowing that the distribution of the time needed to type a page is normal, and the sample standard deviation was equal to 1, determine the confidence level used for the calculations.

Q1 i) 7 रेफ्रिजरेटर सेट के प्रेषित माल में 5 सेट होते हैं, जिन पर कोई खरोंच नहीं होती है।

एक होटल 3 सेटों की एक यादचिक खरीद करता है। यदि एक खरोंच के साथ खरीदे गए रेफ्रिजरेटर सेट की संख्या  $X$  है,

ए)  $X$  के प्रायिकता बंटन का पता लगाएं।

बी)  $X$  के संचयी बंटन फलन (CDF) का पता लगाएं।

सी) संचयी बंटन फलन (CDF) के एक ग्राफ का निर्माण कीजिये।

डी) संचयी बंटन फलन (CDF) का उपयोग करते हुए,  $P(0 < X \leq 2)$  खोजिये।

ii) ए) मान लीजिए कि  $X$  एक दिन में समय के अनुपात को दर्शाता है, जो एक यादचिक रूप से चयनित छात्र स्मार्ट फोन पर खर्च करता है। मान लीजिए कि  $X$  का प्रायिकता घनत्व फलन है

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & elsewhere \end{cases}$$

5 छात्रों का यादचिक नमूना निम्नलिखित अवलोकन के साथ लिया गया है,

0.34, 0.40, 0.12, 0.55, 0.01

क्षणों की विधि का उपयोग करते हुए  $\theta$  का एक अनुमानक प्राप्त करें और फिर इस डेटा के अनुमान की गणना करें।

बी) यदि  $U$  और  $V$  दो स्वतंत्र मानक सामान्य यादचिक चर हैं, और  $Z=0.6U+0.8V$  है, तब  $\text{Corr}(U, Z)$  निर्धारित कीजिये।

iii) 25 यादचिक टाइपिस्टों के एक सर्वेक्षण के आधार पर, एक पृष्ठ टाइप करने के लिए आवश्यक औसत समय का विश्वास अंतराल (5.588; 6.412) है। यह जानते हुए कि किसी पृष्ठ को टाइप करने के लिए आवश्यक समय का वितरण सामान्य है, और

नमूना मानक विचलन 1 के बराबर है, गणना के लिए उपयोग किए गए विश्वास स्तर को निर्धारित कीजिये।

- Q2 i) Suppose that four persons working in a factory are given the job of stamping expiry date on the packet of buns. Person A, who stamps 20% of packets, fails to stamp the expiry date once in every 200 packets. Person B who stamps 60% of packets, fails to stamp the expiry date once in every 100 packets. Person C who stamps 15% of packets, fails to stamp the expiry date once in every 90 packets and Person D who stamps 5% of packets, fails to stamp the expiry date once in every 200 packets. If a buyer complains that her packet of buns does not show the expiry date, what is the probability that,
- It was Person A who failed to stamp?
  - It was stamped by Person B or C?
  - What is the probability that a packet bought shows an expiry date and it was not stamped by B?
- ii) a) A quiz assignment of 150 questions, each question with 5 possible answers, was given to a student of which only 1 answer is correct. The student knows answers of 80 questions. What is the approximate probability that a student with no knowledge of the remaining questions, yields between 20 to 23 correct answers from his sheer guess work?
- b) Assume 50 more questions are added in the assignment. How would the answer to part (i) be affected, if the student knew the answers to all the additional questions.
- iii) It is suggested that the number of persons arriving per hour in a bank follows Poisson process and on average 5 persons arrive per hour. As a precautionary measure to avoid spread of Corona virus, suppose the bank can't allow more than 10 persons to enter in a given hour.
- What is the probability that in a given hour, the bank staff can no longer allow more persons to enter?
  - What is the probability that more than 20 persons enter the bank during a 3-hour period?
- Q2 i) मान लीजिए कि एक कारखाने में काम करने वाले चार व्यक्तियों को बन्स के पैकेट पर एक्सपायरी डेट की मुहर लगाने का काम दिया जाता है। 20% पैकेटों पर मुहर लगाने वाला व्यक्ति A, प्रत्येक 200 पैकेटों में एक बार एक्सपायरी तिथि अंकित करने में विफल रहता है। 60% पैकेटों पर मुहर लगाने वाला व्यक्ति B, प्रत्येक 100 पैकेटों में एक बार एक्सपायरी डेट की मुहर लगाने में विफल रहता है। 15% पैकेटों पर मुहर लगाने वाला व्यक्ति C, प्रत्येक 90 पैकेटों में एक बार एक्सपायरी डेट पर मुहर लगाने

में विफल रहता है और व्यक्ति D जो 5% पैकेटों पर मुहर लगाता है, वह प्रत्येक 200 पैकेटों में एक बार एक्सपायरी डेट पर मुहर लगाने में विफल रहता है। यदि कोई खरीदार शिकायत करता है कि उसके बन्स के पैकेट पर एक्सपायरी डेट नहीं दिखती है, तो क्या संभावना है कि,

- ऐ) यह व्यक्ति A था जो मुहर लगाने में असफल रहा?
  - बी) इस पर व्यक्ति बी या सी ने मुहर लगाई थी?
  - सी) क्या संभावना है कि खरीदा गया एक पैकेट एक्सपायरी डेट दिखाता है और उस पर B द्वारा मुहर नहीं लगाई गई थी?
- ii) ऐ) एक छात्र को 150 प्रश्नों का एक प्रश्नोत्तरी असाइनमेंट दिया जाता हैं जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 संभावित उत्तर हैं, जिनमें से केवल 1 उत्तर सही है। छात्र 80 प्रश्नों के उत्तर जानता है। अनुमानित संभावना क्या है कि, एक छात्र जिसके पास शेष प्रश्नों का ज्ञान नहीं है, वह अपने सीधे अनुमान से 20 से 23 के बीच सही उत्तर देता है?
- बी) मान लीजिये कि असाइनमेंट में 50 और प्रश्न जोड़े गए हैं, भाग (ऐ) का उत्तर कैसे प्रभावित होगा, यदि छात्र सभी अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर जानता हैं।
- iii) यह सुझाव दिया गया है कि एक बैंक में प्रति घंटे आने वाले व्यक्तियों की संख्या पॉइंसन प्रक्रिया का अनुसरण करती है और औसतन 5 व्यक्ति प्रति घंटे बैंक में आते हैं। कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में, मान लीजिए कि बैंक एक निश्चित समय में 10 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता है।
- ऐ) क्या संभावना है कि दिए गए घंटे में, बैंक कर्मचारी अब अधिक व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता है?
  - बी) क्या संभावना है कि 3 घंटे की अवधि के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति बैंक में प्रवेश करते हैं?

Q3 i) The joint probability distribution of two discrete random variables X and Y is given as,

p(x,y)		x		
		1	2	3
y	1	0.1	0.2	0.1
	2	0.15	0	0.15
	3	0.25	0.05	0

- a) Construct the marginal distribution of X and Y.
- b) Are X and Y variables independent?
- c) Find  $E(-2XY)$
- d) Find  $E(Y/X=2)$ .
- e) Find correlation coefficient between X and Y.

ii) The density function of a random variable X is given as,

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

- a) Calculate  $P(X \leq 1/3)$ .
- b) What is probability that X will exceed 0.5?
- c) Given that  $X \geq 0.5$ , what is probability that X will be less than 0.75?

iii) What is the probability that the owner of the Hotel Bar does not allow the two minors to enter, if he randomly checks the identity cards of 5 students from among 9 students of which only 5 are of eligible age.

Q3 i) दो असतत यादचिक चर X और Y का संयुक्त संभाव्यता वितरण निम्नानुसार है,

p(x,y)		x		
		1	2	3
y	1	0.1	0.2	0.1
	2	0.15	0	0.15
	3	0.25	0.05	0

ए) X और Y के सीमांत वितरण का निर्माण कीजिये।

बी) क्या X और Y चर स्वतंत्र हैं?

- सी)  $E(-2XY)$  का ज्ञात कीजिये ।
- डी)  $E(Y/X=2)$  का ज्ञात कीजिये ।
- ई)  $X$  और  $Y$  के बीच सहसंबंध गुणांक का ज्ञात कीजिये।
- ii) एक यादचिक चर  $X$  का घनत्व कार्य निम्नानुसार दिया गया है,
- $$f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & elsewhere \end{cases}$$
- ए) गणना कीजिये  $P(X \leq 1/3)$ ।
- बी) क्या संभावना है कि  $X$  0.5 से अधिक होगा?
- सी) अगर यह दिया हुआ है कि  $X \geq 0.5$ , क्या संभावना है कि  $X$  0.75 से कम होगा?
- iii) क्या संभावना है कि होटल बार का मालिक दो नाबालिगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है, अगर वह 9 छात्रों में से 5 छात्रों के पहचान पत्र को यादचिक रूप से जांचता है, जिनमें से केवल 5 उपयुक्त आयु के हैं।
- Q4 i) To check the effectiveness of two brands of refrigerators, time taken for ice cubes to be formed from water in the freezer was compared. Two independent experiments based on 15 refrigerators of each brand were performed and time taken in formation of ice cubes was recorded. Suppose the population variance for both brands is 1.0 hour. Assuming normal distribution and mean time for both brands is equal to 20 hours, find the,
- a) Probability that the average time taken by brand A ( $\bar{X}_A$ ) is higher than average time taken by B brand ( $\bar{X}_B$ ) is at least 1.0 hour.
- b) Probability that  $\bar{X}_A$  will deviate from  $\bar{X}_B$  by at least 45 minutes.
- c) How would your answer change if the underlying distribution was not normal?
- ii) Find a maximum likelihood estimator of  $\mu$  for a random sample of  $X_1, X_2, \dots, X_n$  taken from a Poisson distribution. Clearly write all the steps.
- iii) a) If  $X$  is distributed as normal with  $\mu = 40$  and  $\sigma^2 = 4$ , compute three values of the random variable  $X$  that divide the distribution in four equal parts.

- b) Find k such that  $P(k < T < -1.729) = 0.049$  for a random sample of size 20 taken from a normal distribution with  $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ .

- Q4 i) दो ब्रांडों के रेफिजरेटर की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए, फ्रीजर में पानी से बर्फ के टुकड़े बनाने के लिए लगने वाले समय की तुलना की गई है। प्रत्येक ब्रांड के 15 रेफिजरेटर पर आधारित दो स्वतंत्र प्रयोगों का प्रदर्शन किया गया और बर्फ के टुकड़ों के निर्माण में लगने वाले समय को अभिलिखित किया गया। मान लीजिए दोनों ब्रांडों के लिए समष्टि प्रसरण 1.0 घंटे हैं। मान लीजिए दोनों ब्रांडों के लिए सामान्य वितरण और औसत समय 20 घंटे के बराबर हैं, जात कीजिये,
- ऐ) क्या संभावना है कि ब्रांड A द्वारा लिया गया औसत समय ( $\bar{X}_A$ ), ब्रांड B द्वारा लिए गए औसत समय ( $\bar{X}_B$ ) से, कम से कम 1.0 घंटे उच्चतम हैं।
- बी) क्या संभावना है कि ( $\bar{X}_A$ ) कम से कम 45 मिनट ( $\bar{X}_B$ ), से विचलन करेगा।
- सी) यदि अंतर्निहित वितरण सामान्य नहीं है तो आपका उत्तर कैसे बदलेगा?
- ii)  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , के एक पॉइसन वितरण से लिए गए यादचिक नमूने के लिए  $\mu$  का अधिकतम संभावना अनुमानक जात कीजिये, सभी चरणों को स्पष्ट रूप से लिखिए।
- iii) ऐ) यदि  $X$  को  $\mu=40$  और  $\sigma^2=4$  के साथ सामान्य रूप से वितरित किया जाता है, तो यादचिक चर  $X$  के तीन मानों की गणना कीजिये जो वितरण को चार समान भागों में विभाजित करते हैं।
- बी) एक सामान्य वितरण से 20 के आकार के यादचिक नमूने को लिया गया है, तो  $P(k < T < -1.729) = 0.049$  के लिए K का जात कीजिये जब  $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$  है।

- Q5 i) Consider a random sample  $X_1, X_2, \dots, X_{30}$  of size 30, drawn from a normal distribution with  $\mu=30$ , find maximum likelihood estimator of the population variance  $\sigma^2$ .
- a) Is the maximum likelihood estimator obtained in part (i) biased? Justify your answer.
- b) If the observed sample is 3, 6, 2, 0, 4, 3; compute the MLE of  $\sigma^2$ .
- c) How would your answer in part (i) be affected if the number of observations remains 30 and  $\mu$  is reduced to zero?

- ii) Suppose a test procedure about the population mean  $\mu$  is performed, when the population is normal and the sample size is 10. If the alternative hypothesis is:
- Ha:  $\mu < \mu_0$ , what is the rejection region for the test at 5% level of significance, if the population standard deviation is known? Show diagrammatically.
  - Ha:  $\mu \neq \mu_0$ , what is the rejection region for the test at 2% level of significance, if the population standard deviation is unknown? Show diagrammatically.
  - If the sample of 10 observations gave a mean of 20 and a standard deviation of 2, conduct the test in part (ii), given that  $\mu_0 = 21$ .
- iii) a) A paediatrician wants to estimate the mean weight of firstborn babies which is normally distributed. The standard deviation of weight for all firstborn babies is 1.15 kg. If she wants to be 94% sure that the mean weight of firstborns differs from their sample mean by no more than 0.25 kgs, what should be the size of the sample?
- b) For a given sample size, why is a 90% confidence interval smaller than 99%. Wouldn't it always be desirable to reduce the interval width in this manner?

- Q5 i) एक 30 के आकार के यादचिक नमूने  $X_1, X_2, \dots, X_{30}$ , पर विचार कीजिये, जो  $\mu = 30$  के साथ एक सामान्य वितरण से खींचा गया है, समष्टि प्रसरण  $\sigma^2$  का अधिकतम संभावना अनुमानक ज्ञात कीजिये।
- ऐ) क्या भाग (i) में प्राप्त हुआ अधिकतम संभावना अनुमानक पक्षपाती है? अपने जवाब का औचित्य साबित कीजिये।
- बी) यदि देखा गया नमूना 3, 6, 2, 0, 4, 3 है, तो  $\sigma^2$  के MLE की गणना कीजिये।
- ग) यदि टिप्पणियों की संख्या 30 और  $\mu$  शून्य तक कम हो जाता है, तो आपका उत्तर भाग (i) में कैसे प्रभावित होगा?
- ii) मान लीजिए कि जनसंख्या औसत  $\mu$  के बारे में परीक्षण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है, जब जनसंख्या सामान्य है और नमूना आकार 10 है। यदि वैकल्पिक परिकल्पना है:
- ऐ)  $H_a: \mu < \mu_0$ , तो 5% के स्तर पर परीक्षण के लिए अस्वीकृति क्षेत्र क्या है अगर जनसंख्या मानक विचलन ज्ञात है? आकृति द्वारा दिखाएं।

बी)  $H_a: \mu \neq \mu_0$ , तो 2% के स्तर पर परीक्षण के लिए अस्वीकृति क्षेत्र क्या है  
 अगर जनसंख्या मानक विचलन ज्ञात नहीं है? आकृति द्वारा दिखाएं।  
 सी) यदि 10 अवलोकनों के नमूने में 20 का औसत दिया जाता है और 2 का मानक  
 विचलन होता है, तो भाग (ii) का परीक्षण करें, यह देखते हुए कि  $\mu_0=21$  है।

iii) ऐ) एक बाल रोग विशेषज्ञ सभी पहली जन्मी संतान के औसत वजन का अनुमान लगाना चाहता है। सभी पहली जन्मी संतान के वजन का मानक विचलन 1.15 किलोग्राम है। अगर वह 94% सुनिश्चित होना चाहती है कि पहली जन्मी संतान का औसत वजन और नमूना औसत का अंतर 0.25 किलोग्राम से अधिक नहीं है, तो नमूने का आकार क्या होना चाहिए?

बी) दिए गए नमूने के आकार के लिए, 90% अंतराल 99% अंतराल से कम क्यों है।  
 क्या इस तरह से अंतराल की चौड़ाई को कम करना हमेशा वांछनीय नहीं होगा?

- Q6 i) A chief financial officer (CFO) of a large company claims that the employees of his company have an average earning ( $\mu$ ) of more than ₹ 2100 per month. To test the claim, Mr. Jack took a sample of 64 employees and found the sample average income of ₹2135 with standard deviation equal to ₹ 1360.
- a) State the appropriate null and alternative hypotheses.
  - b) Based on the sample information, with  $\alpha = 2.5\%$ , test the hypothesis stated in part (a). What conclusion do you draw? Use p-value approach.
  - c) Would your conclusion in part (b) remain unchanged if  $\alpha = 1\%$ , is used instead.
  - d) Calculate type II error ( $\beta$ ) in part (b), for true  $\mu = ₹2150$ . Show diagrammatically.
  - e) If the claim of CFO is that the employees of his company have an average earning of ₹ 2100 per month, how would you test this claim using p value approach, with  $\alpha = 2.5\%$ .
- (ii) a) 36 out of 100 persons interviewed are familiar with the tax incentives given by the government for installing solar panels, construct a 96 % traditional confidence interval for the corresponding true proportion.
- b) The average wages of 25 employees of a company are ₹ 2500 with a standard deviation of ₹ 250. Assuming wages to be normally distributed, calculate 98% confidence upper bound for the average wages and interpret it.

Q6 i) एक बड़ी कंपनी के एक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का दावा है कि उसकी कंपनी के कर्मचारियों की औसत कमाई ( $\mu$ ) प्रति माह ₹ 2100 से अधिक है। दावे का परीक्षण करने के लिए, श्री जैक ने 64 कर्मचारियों का नमूना लिया और पाया कि नमूना औसत आय ₹ 2135 है अथवा मानक विचलन ₹ 1360 के बराबर है।

ऐ) उपयुक्त अशक्त और वैकल्पिक परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिये।

बी) नमूना जानकारी के आधार पर, अथवा  $\alpha = 2.5\%$  के साथ, भाग (ऐ) में बताई गई परिकल्पना का परीक्षण कीजिये। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पी-मान (p-value) का उपयोग कीजिये।

सी) यदि  $\alpha = 1\%$ , का उपयोग किया जाता है, तो क्या आपके निष्कर्ष भाग (बी) में अपरिवर्तित रहेंगे?

डी) अगर यथार्थ  $\mu = ₹ 2150$  है तो भाग (बी) के लिए टाइप II त्रुटि ( $\beta$ ) की गणना कीजिये। आकृति द्वारा दिखाएं।

इ) यदि सीएफओ (CFO) का यह दावा है कि उसकी कंपनी के कर्मचारियों की औसत कमाई ₹ 2100 प्रति माह है, तो  $\alpha = 2.5\%$  के साथ पी मूल्य (p-value) दृष्टिकोण का उपयोग करके आप इस दावे का परीक्षण कैसे करेंगे?

(ii) ऐ) साक्षात्कार में लिए गए 100 में से 36 व्यक्ति सौर पैनलों को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए कर प्रोत्साहन से परिचित हैं, इसी वास्तविक अनुपात के लिए 96% पारंपरिक विश्वास अंतराल का निर्माण कीजिये।

बी) एक कंपनी के 25 कर्मचारियों का ₹ 250 के मानक विचलन के साथ औसत मजदूरी ₹ 2500 है। मान लीजिये मजदूरी को सामान्य रूप से वितरित किया जाता है, तो औसत मजदूरी के लिए 98% विश्वास ऊपरी बाध्यता की गणना कीजिये अथवा इसकी व्याख्या कीजिये।

**Table A.1 Cumulative Binomial Probabilities**a.  $n = 5$ 

$$B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p)$$

		<i>p</i>														
		0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
<i>x</i>	0	.951	.774	.590	.328	.237	.168	.078	.031	.010	.002	.001	.000	.000	.000	.000
	1	.999	.977	.919	.737	.633	.528	.337	.188	.087	.031	.016	.007	.000	.000	.000
	2	1.000	.999	.991	.942	.896	.837	.683	.500	.317	.163	.104	.058	.009	.001	.000
	3	1.000	1.000	1.000	.993	.984	.969	.913	.812	.663	.472	.367	.263	.081	.023	.001
	4	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.998	.990	.969	.922	.832	.763	.672	.410	.226	.049

b.  $n = 10$ 

		<i>p</i>														
		0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
<i>x</i>	0	.904	.599	.349	.107	.056	.028	.006	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	1	.996	.914	.736	.376	.244	.149	.046	.011	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	2	1.000	.988	.930	.678	.526	.383	.167	.055	.012	.002	.000	.000	.000	.000	.000
	3	1.000	.999	.987	.879	.776	.650	.382	.172	.055	.011	.004	.001	.000	.000	.000
	4	1.000	1.000	.998	.967	.922	.850	.633	.377	.166	.047	.020	.006	.000	.000	.000
	5	1.000	1.000	1.000	.994	.980	.953	.834	.623	.367	.150	.078	.033	.002	.000	.000
	6	1.000	1.000	1.000	.999	.996	.989	.945	.828	.618	.350	.224	.121	.013	.001	.000
	7	1.000	1.000	1.000	1.000	.998	.988	.945	.833	.617	.474	.322	.070	.012	.000	.000
	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.998	.989	.954	.851	.756	.624	.264	.086	.004
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.994	.972	.944	.893	.651	.401	.096

c.  $n = 15$ 

		<i>p</i>														
		0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
<i>x</i>	0	.860	.463	.206	.035	.013	.005	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	1	.990	.829	.549	.167	.080	.035	.005	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	2	1.000	.964	.816	.398	.236	.127	.027	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	3	1.000	.995	.944	.648	.461	.297	.091	.018	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	4	1.000	.999	.987	.836	.686	.515	.217	.059	.009	.001	.000	.000	.000	.000	.000
	5	1.000	1.000	.998	.939	.852	.722	.403	.151	.034	.004	.001	.000	.000	.000	.000
	6	1.000	1.000	1.000	.982	.943	.869	.610	.304	.095	.015	.004	.001	.000	.000	.000
	7	1.000	1.000	1.000	.996	.983	.950	.787	.500	.213	.050	.017	.004	.000	.000	.000
	8	1.000	1.000	1.000	.999	.996	.985	.905	.696	.390	.131	.057	.018	.000	.000	.000
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.996	.966	.849	.597	.278	.148	.061	.002	.000	.000
<i>x</i>	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.991	.941	.783	.485	.314	.164	.013	.001	.000
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.998	.982	.909	.703	.539	.352	.056	.005	.000
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.996	.973	.873	.764	.602	.184	.036	.000
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.995	.965	.920	.833	.451	.171	.010
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.995	.987	.965	.794	.537	.140	

(continued)

**Table A.1 Cumulative Binomial Probabilities (cont.)****d.  $n = 20$** 

$$B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p)$$

	<b><i>p</i></b>														
	<b>0.01</b>	<b>0.05</b>	<b>0.10</b>	<b>0.20</b>	<b>0.25</b>	<b>0.30</b>	<b>0.40</b>	<b>0.50</b>	<b>0.60</b>	<b>0.70</b>	<b>0.75</b>	<b>0.80</b>	<b>0.90</b>	<b>0.95</b>	<b>0.99</b>
0	.818	.358	.122	.012	.003	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
1	.983	.736	.392	.069	.024	.008	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
2	.999	.925	.677	.206	.091	.035	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
3	1.000	.984	.867	.411	.225	.107	.016	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
4	1.000	.997	.957	.630	.415	.238	.051	.006	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
5	1.000	1.000	.989	.804	.617	.416	.126	.021	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000
6	1.000	1.000	.998	.913	.786	.608	.250	.058	.006	.000	.000	.000	.000	.000	.000
7	1.000	1.000	1.000	.968	.898	.772	.416	.132	.021	.001	.000	.000	.000	.000	.000
8	1.000	1.000	1.000	.990	.959	.887	.596	.252	.057	.005	.001	.000	.000	.000	.000
<i>x</i>	9	1.000	1.000	1.000	.997	.986	.952	.755	.412	.128	.017	.004	.001	.000	.000
10	1.000	1.000	1.000	.999	.996	.983	.872	.588	.245	.048	.014	.003	.000	.000	.000
11	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.995	.943	.748	.404	.113	.041	.010	.000	.000	.000
12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.979	.868	.584	.228	.102	.032	.000	.000	.000
13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.994	.942	.750	.392	.214	.087	.002	.000	.000
14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.998	.979	.874	.584	.383	.196	.011	.000	.000
15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.994	.949	.762	.585	.370	.043	.003	.000
16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.984	.893	.775	.589	.133	.016	.000
17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.996	.965	.909	.794	.323	.075	.001
18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.992	.976	.931	.608	.264	.017
19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.997	.988	.878	.642	.182

(continued)

A-4 Appendix Tables

**Table A.1 Cumulative Binomial Probabilities (cont.)**

e.  $n = 25$

$$B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p)$$

		<i>p</i>														
		0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
<i>x</i>	0	.778	.277	.072	.004	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	1	.974	.642	.271	.027	.007	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	2	.998	.873	.537	.098	.032	.009	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	3	1.000	.966	.764	.234	.096	.033	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	4	1.000	.993	.902	.421	.214	.090	.009	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	5	1.000	.999	.967	.617	.378	.193	.029	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	6	1.000	1.000	.991	.780	.561	.341	.074	.007	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	7	1.000	1.000	.998	.891	.727	.512	.154	.022	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	8	1.000	1.000	1.000	.953	.851	.677	.274	.054	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	9	1.000	1.000	1.000	.983	.929	.811	.425	.115	.013	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	10	1.000	1.000	1.000	.994	.970	.902	.586	.212	.034	.002	.000	.000	.000	.000	.000
	11	1.000	1.000	1.000	.998	.980	.956	.732	.345	.078	.006	.001	.000	.000	.000	.000
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	.997	.983	.846	.500	.154	.017	.003	.000	.000	.000	.000
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.994	.922	.655	.268	.044	.020	.002	.000	.000	.000
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.998	.966	.788	.414	.098	.030	.006	.000	.000	.000
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.987	.885	.575	.189	.071	.017	.000	.000	.000
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.996	.946	.726	.323	.149	.047	.000	.000	.000
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.978	.846	.488	.273	.109	.002	.000	.000
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.993	.926	.659	.439	.220	.009	.000	.000
	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.998	.971	.807	.622	.383	.033	.001	.000
	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.991	.910	.786	.579	.098	.007	.000
	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.998	.967	.904	.766	.236	.034	.000
	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.991	.968	.902	.463	.127	.002
	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.998	.993	.973	.729	.358	.026
	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.996	.928	.723	.222

**Table A.2 Cumulative Poisson Probabilities**

$$F(x; \mu) = \sum_{y=0}^x \frac{e^{-\mu} \mu^y}{y!}$$

		<i>μ</i>									
		.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.10
<i>x</i>	0	.905	.819	.741	.670	.607	.549	.497	.449	.407	.368
	1	.995	.982	.963	.938	.910	.878	.844	.809	.772	.736
	2	1.000	.999	.996	.992	.986	.977	.966	.953	.937	.920
	3		1.000	1.000	.999	.998	.997	.994	.991	.987	.981
	4			1.000	1.000	1.000	1.000	.999	.999	.998	.996
	5				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.999
	6							1.000	1.000	1.000	1.000

(continued)


**Table A.2 Cumulative Poisson Probabilities (cont.)**

$$F(x; \mu) = \sum_{y=0}^x \frac{e^{-\mu} \mu^y}{y!}$$

	$\mu$										
	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	15.0	20.0
0	.135	.050	.018	.007	.002	.001	.000	.000	.000	.000	.000
1	.406	.199	.092	.040	.017	.007	.003	.001	.000	.000	.000
2	.677	.423	.238	.125	.062	.030	.014	.006	.003	.000	.000
3	.857	.647	.433	.265	.151	.082	.042	.021	.010	.000	.000
4	.947	.815	.629	.440	.285	.173	.100	.055	.029	.001	.000
5	.983	.916	.785	.616	.446	.301	.191	.116	.067	.003	.000
6	.995	.966	.889	.762	.606	.450	.313	.207	.130	.008	.000
7	.999	.988	.949	.867	.744	.599	.453	.324	.220	.018	.001
8	1.000	.996	.979	.932	.847	.729	.593	.456	.333	.037	.002
9		.999	.992	.968	.916	.830	.717	.587	.458	.070	.005
10		1.000	.997	.986	.957	.901	.816	.706	.583	.118	.011
11			.999	.995	.980	.947	.888	.803	.697	.185	.021
12				1.000	.998	.991	.973	.936	.876	.792	.268
13					.999	.996	.987	.966	.926	.864	.363
14					1.000	.999	.994	.983	.959	.917	.466
15						.999	.998	.992	.978	.951	.568
16						1.000	.999	.996	.989	.973	.664
17							1.000	.998	.995	.986	.749
x	18							.999	.998	.993	.819
19								1.000	.999	.997	.875
20									1.000	.998	.917
21										.999	.947
22										1.000	.967
23											.981
24											.989
25											.994
26											.997
27											.998
28											.999
29											1.000
30											.987
31											.992
32											.995
33											.997
34											.999
35											.999
36											1.000

**Table A.3 Standard Normal Curve Areas**

$$(z) = P(Z \leq z)$$



$z$	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0017	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0038
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0352	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0722	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3482
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

(continued)


**Table A.3 Standard Normal Curve Areas (cont.)**

<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	$\Phi(z) = P(Z \leq z)$
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359	
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753	
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141	
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517	
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879	
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224	
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549	
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852	
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133	
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389	
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621	
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830	
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015	
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177	
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9278	.9292	.9306	.9319	
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441	
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545	
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633	
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706	
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767	
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817	
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857	
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890	
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916	
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936	
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952	
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964	
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974	
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981	
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986	
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990	
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993	
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995	
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997	
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998	

**Table A.4 The Incomplete Gamma Function**

$$F(x; \alpha) = \int_0^x \frac{1}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-y} dy$$


<i>x</i> \ <i>α</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	.632	.264	.080	.019	.004	.001	.000	.000	.000	.000
2	.865	.594	.323	.143	.053	.017	.005	.001	.000	.000
3	.950	.801	.577	.353	.185	.084	.034	.012	.004	.001
4	.982	.908	.762	.567	.371	.215	.111	.051	.021	.008
5	.993	.960	.875	.735	.560	.384	.238	.133	.068	.032
6	.998	.983	.938	.849	.715	.554	.394	.256	.153	.084
7	.999	.993	.970	.918	.827	.699	.550	.401	.271	.170
8	1.000	.997	.986	.958	.900	.809	.687	.547	.407	.283
9		.999	.994	.979	.945	.884	.793	.676	.544	.413
10		1.000	.997	.990	.971	.933	.870	.780	.667	.542
11			.999	.995	.985	.962	.921	.857	.768	.659
12				1.000	.998	.992	.980	.954	.911	.845
13					.999	.996	.989	.974	.946	.900
14						1.000	.998	.994	.986	.968
15							.999	.997	.992	.982
									.963	.930

**Table A.5 Critical Values for  $t$  Distributions**

$v$	$\alpha$						
	.10	.05	.025	.01	.005	.001	.0005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.326	31.598
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.213	12.924
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738	3.365	3.622
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728	3.348	3.601
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719	3.333	3.582
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712	3.319	3.566
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.262	3.496
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291


**Table A6 Tolerance Critical Values for Normal Population Distributions**

Confidence Level % of Population Captured	Two-sided Intervals				One-sided Intervals			
	95%	≥ 90%	≥ 95%	≥ 99%	95%	≥ 90%	≥ 95%	99%
2	32.019	37.674	48.430	160.193	188.491	242.300	20.581	26.260
3	8.380	9.916	12.861	18.930	22.401	29.055	6.156	7.656
4	5.369	6.370	8.299	9.398	11.150	14.527	4.162	5.144
5	4.275	5.079	6.634	6.612	7.855	10.260	3.407	4.203
6	3.712	4.414	5.775	5.337	6.345	8.301	3.006	3.708
7	3.369	4.007	5.248	4.613	5.488	7.187	2.756	3.400
8	3.136	3.732	4.891	4.147	4.936	6.468	2.582	3.187
9	2.967	3.532	4.631	3.822	4.550	5.966	2.454	3.031
10	2.839	3.379	4.433	3.582	4.265	5.594	2.355	2.911
11	2.737	3.259	4.277	3.397	4.045	5.308	2.275	2.815
12	2.655	3.162	4.150	3.250	3.870	5.079	2.210	2.736
13	2.587	3.081	4.044	3.130	3.727	4.893	2.155	2.671
14	2.529	3.012	3.955	3.029	3.608	4.737	2.109	2.615
15	2.480	2.954	3.878	2.945	3.507	4.605	2.068	2.566
16	2.437	2.903	3.812	2.872	3.421	4.492	2.033	2.524
17	2.400	2.858	3.754	2.808	3.345	4.393	2.002	2.486
18	2.366	2.819	3.702	2.753	3.279	4.307	1.974	2.453
19	2.337	2.784	3.656	2.703	3.221	4.230	1.949	2.423
20	2.310	2.752	3.615	2.659	3.168	4.161	1.926	2.396
25	2.208	2.631	3.457	2.494	2.972	3.904	1.838	2.292
30	2.140	2.549	3.350	2.385	2.841	3.733	1.777	2.220
35	2.090	2.490	3.272	2.306	2.748	3.611	1.732	2.167
40	2.052	2.445	3.213	2.247	2.677	3.518	1.697	2.126
45	2.021	2.408	3.165	2.200	2.621	3.444	1.669	2.092
50	1.996	2.379	3.126	2.162	2.576	3.385	1.646	2.065
60	1.958	2.333	3.066	2.103	2.506	3.293	1.609	2.022
70	1.929	2.299	3.021	2.060	2.454	3.225	1.581	1.990
80	1.907	2.272	2.986	2.026	2.414	3.173	1.559	1.965
90	1.889	2.251	2.958	1.999	2.382	3.130	1.542	1.944
100	1.874	2.233	2.934	1.977	2.355	3.096	1.527	1.927
150	1.825	2.175	2.859	1.905	2.270	2.983	1.478	1.870
200	1.798	2.143	2.816	1.865	2.222	2.921	1.450	1.837
250	1.780	2.121	2.788	1.839	2.191	2.880	1.431	1.815
300	1.767	2.106	2.767	1.820	2.169	2.850	1.417	1.800
∞	1.645	1.960	2.576	1.645	1.960	2.576	1.282	1.645

**Table A.7 Critical Values for Chi-Squared Distributions**


$\nu$	$\alpha$									
	.995	.99	.975	.95	.90	.10	.05	.025	.01	.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.882
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.022	21.665	23.587
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.724	26.755
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.735	27.687	29.817
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.600	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.577	32.799
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.843	7.632	8.906	10.117	11.651	27.203	30.143	32.852	36.190	38.580
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.033	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.670	35.478	38.930	41.399
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.195	11.688	13.090	14.848	32.007	35.172	38.075	41.637	44.179
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.519	11.523	13.120	14.611	16.473	34.381	37.652	40.646	44.313	46.925
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.807	12.878	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.962	49.642
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.120	14.256	16.147	17.708	19.768	39.087	42.557	45.772	49.586	52.333
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
31	14.457	15.655	17.538	19.280	21.433	41.422	44.985	48.231	52.190	55.000
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	15.814	17.073	19.046	20.866	23.110	43.745	47.400	50.724	54.774	57.646
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	44.903	48.602	51.966	56.061	58.964
35	17.191	18.508	20.569	22.465	24.796	46.059	49.802	53.203	57.340	60.272
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	18.584	19.960	22.105	24.075	26.492	48.363	52.192	55.667	59.891	62.880
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	19.994	21.425	23.654	25.695	28.196	50.660	54.572	58.119	62.426	65.473
40	20.706	22.164	24.433	26.509	29.050	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766

$$\text{For } \nu > 40, \chi^2_{\alpha, \nu} \approx \nu \left( 1 - \frac{2}{9\nu} + z_\alpha \sqrt{\frac{2}{9\nu}} \right)^3$$

**Table A.8 t Curve Tail Areas**

<i>t</i>	<i>v</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.0		.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	
0.1		.468	.465	.463	.463	.462	.462	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	
0.2		.437	.430	.427	.426	.425	.424	.424	.423	.423	.423	.423	.422	.422	.422	.422	.422	.422	
0.3		.407	.396	.392	.390	.388	.387	.386	.386	.386	.385	.385	.385	.384	.384	.384	.384	.384	
0.4		.379	.364	.358	.355	.353	.352	.351	.350	.349	.349	.348	.348	.348	.347	.347	.347	.347	
0.5		.352	.333	.326	.322	.319	.317	.316	.315	.315	.314	.313	.313	.313	.312	.312	.312	.312	
0.6		.328	.305	.295	.290	.287	.285	.284	.283	.282	.281	.280	.280	.279	.279	.279	.278	.278	
0.7		.306	.278	.267	.261	.258	.255	.253	.252	.251	.250	.249	.249	.248	.247	.247	.247	.246	
0.8		.285	.254	.241	.234	.230	.227	.225	.223	.222	.221	.220	.220	.219	.218	.218	.218	.217	
0.9		.267	.232	.217	.210	.205	.201	.199	.197	.196	.195	.194	.193	.192	.191	.191	.191	.190	
1.0		.250	.211	.196	.187	.182	.178	.175	.173	.172	.170	.169	.169	.168	.167	.167	.166	.165	
1.1		.235	.193	.176	.167	.162	.157	.154	.152	.150	.149	.147	.146	.146	.144	.144	.143	.143	
1.2		.221	.177	.158	.148	.142	.138	.135	.132	.130	.129	.128	.127	.126	.124	.124	.124	.123	
1.3		.209	.162	.142	.132	.125	.121	.117	.115	.113	.111	.110	.109	.108	.107	.107	.106	.105	
1.4		.197	.148	.128	.117	.110	.106	.102	.100	.098	.096	.095	.093	.092	.091	.091	.090	.089	
1.5		.187	.136	.115	.104	.097	.092	.089	.086	.084	.082	.081	.080	.079	.077	.077	.076	.075	
1.6		.178	.125	.104	.092	.085	.080	.077	.074	.072	.070	.069	.068	.067	.065	.065	.064	.064	
1.7		.169	.116	.094	.082	.075	.070	.065	.064	.062	.060	.059	.057	.056	.055	.055	.054	.053	
1.8		.161	.107	.085	.073	.066	.061	.057	.055	.053	.051	.050	.049	.048	.046	.046	.045	.044	
1.9		.154	.099	.077	.065	.058	.053	.050	.047	.045	.043	.042	.041	.040	.038	.038	.038	.037	
2.0		.148	.092	.070	.058	.051	.046	.043	.040	.038	.037	.035	.034	.033	.032	.031	.031	.030	
2.1		.141	.085	.063	.052	.045	.040	.037	.034	.033	.031	.030	.029	.028	.027	.027	.026	.025	
2.2		.136	.079	.058	.046	.040	.035	.032	.029	.028	.026	.025	.024	.023	.022	.022	.021	.021	
2.3		.131	.074	.052	.041	.035	.031	.027	.025	.023	.022	.021	.020	.019	.018	.018	.017	.017	
2.4		.126	.069	.048	.037	.031	.027	.024	.022	.020	.019	.018	.017	.016	.015	.015	.014	.014	
2.5		.121	.065	.044	.033	.027	.023	.020	.018	.017	.016	.015	.014	.013	.012	.012	.012	.011	
2.6		.117	.061	.040	.030	.024	.020	.018	.016	.014	.013	.012	.012	.011	.010	.010	.010	.009	
2.7		.113	.057	.037	.027	.021	.018	.015	.014	.012	.011	.010	.010	.009	.008	.008	.008	.007	
2.8		.109	.054	.034	.024	.019	.016	.013	.012	.010	.009	.009	.008	.008	.007	.007	.006	.006	
2.9		.106	.051	.031	.022	.017	.014	.011	.010	.009	.008	.007	.007	.006	.005	.005	.005	.005	
3.0		.102	.048	.029	.020	.015	.012	.010	.009	.007	.007	.006	.006	.005	.004	.004	.004	.004	
3.1		.099	.045	.027	.018	.013	.011	.009	.007	.006	.006	.005	.005	.004	.004	.004	.003	.003	
3.2		.096	.043	.025	.016	.012	.009	.008	.006	.005	.005	.004	.004	.003	.003	.003	.003	.002	
3.3		.094	.040	.023	.015	.011	.008	.007	.005	.005	.004	.004	.003	.003	.002	.002	.002	.002	
3.4		.091	.038	.021	.014	.010	.007	.006	.005	.004	.003	.003	.003	.002	.002	.002	.002	.002	
3.5		.089	.036	.020	.012	.009	.006	.005	.004	.003	.003	.002	.002	.002	.002	.002	.001	.001	
3.6		.086	.035	.018	.011	.008	.006	.004	.004	.003	.002	.002	.002	.002	.001	.001	.001	.001	
3.7		.084	.033	.017	.010	.007	.005	.004	.003	.002	.002	.002	.002	.001	.001	.001	.001	.001	
3.8		.082	.031	.016	.010	.006	.004	.003	.003	.002	.002	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	
3.9		.080	.030	.015	.009	.006	.004	.003	.002	.002	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	
4.0		.078	.029	.014	.008	.005	.004	.003	.002	.002	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.000	.000	

(continued)

**Table A.8 t Curve Tail Areas (cont.)**

$t \setminus \nu$	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40	60	120	$\infty (=z)$
<b>0.0</b>	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500	.500
<b>0.1</b>	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.461	.460	.460	.460	.460	.460
<b>0.2</b>	.422	.422	.422	.422	.422	.422	.422	.422	.421	.421	.421	.421	.421	.421	.421	.421	.421
<b>0.3</b>	.384	.384	.384	.383	.383	.383	.383	.383	.383	.383	.383	.383	.383	.383	.383	.382	.382
<b>0.4</b>	.347	.347	.347	.346	.346	.346	.346	.346	.346	.346	.346	.346	.346	.346	.345	.345	.345
<b>0.5</b>	.311	.311	.311	.311	.311	.311	.311	.311	.311	.310	.310	.310	.310	.310	.309	.309	.309
<b>0.6</b>	.278	.278	.278	.277	.277	.277	.277	.277	.277	.277	.277	.277	.276	.276	.275	.275	.274
<b>0.7</b>	.246	.246	.246	.246	.245	.245	.245	.245	.245	.245	.245	.245	.244	.244	.243	.243	.242
<b>0.8</b>	.217	.217	.216	.216	.216	.216	.215	.215	.215	.215	.215	.215	.215	.214	.213	.213	.212
<b>0.9</b>	.190	.189	.189	.189	.189	.188	.188	.188	.188	.188	.188	.188	.187	.187	.186	.185	.184
<b>1.0</b>	.165	.165	.164	.164	.164	.163	.163	.163	.163	.163	.163	.163	.162	.162	.161	.160	.159
<b>1.1</b>	.143	.142	.142	.141	.141	.141	.141	.141	.140	.140	.140	.140	.139	.139	.138	.137	.136
<b>1.2</b>	.122	.122	.122	.121	.121	.121	.121	.120	.120	.120	.120	.120	.119	.119	.117	.116	.115
<b>1.3</b>	.105	.104	.104	.104	.103	.103	.103	.103	.102	.102	.102	.102	.101	.101	.099	.098	.097
<b>1.4</b>	.089	.089	.088	.088	.087	.087	.087	.087	.086	.086	.086	.086	.085	.085	.083	.082	.081
<b>1.5</b>	.075	.075	.074	.074	.074	.073	.073	.073	.073	.072	.072	.072	.071	.071	.069	.068	.067
<b>1.6</b>	.063	.063	.062	.062	.062	.061	.061	.061	.061	.060	.060	.060	.059	.059	.057	.056	.055
<b>1.7</b>	.053	.052	.052	.052	.051	.051	.051	.051	.050	.050	.050	.050	.049	.048	.047	.046	.045
<b>1.8</b>	.044	.043	.043	.043	.042	.042	.042	.042	.041	.041	.041	.041	.040	.040	.038	.037	.036
<b>1.9</b>	.036	.036	.036	.035	.035	.035	.035	.034	.034	.034	.034	.034	.033	.032	.031	.030	.029
<b>2.0</b>	.030	.030	.029	.029	.029	.028	.028	.028	.028	.027	.027	.027	.026	.025	.024	.023	
<b>2.1</b>	.025	.024	.024	.023	.023	.023	.023	.023	.022	.022	.022	.022	.021	.020	.019	.018	
<b>2.2</b>	.020	.020	.020	.019	.019	.019	.018	.018	.018	.018	.018	.018	.017	.017	.016	.015	.014
<b>2.3</b>	.016	.016	.016	.016	.015	.015	.015	.015	.015	.014	.014	.014	.014	.013	.012	.012	.011
<b>2.4</b>	.013	.013	.013	.013	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.011	.011	.011	.010	.009	.008	.008
<b>2.5</b>	.011	.011	.010	.010	.010	.010	.010	.009	.009	.009	.009	.009	.009	.008	.008	.007	.006
<b>2.6</b>	.009	.009	.008	.008	.008	.008	.008	.008	.007	.007	.007	.007	.007	.007	.006	.005	.005
<b>2.7</b>	.007	.007	.007	.007	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.005	.005	.004	.004	.003
<b>2.8</b>	.006	.006	.005	.005	.005	.005	.005	.005	.005	.005	.004	.004	.004	.004	.003	.003	.003
<b>2.9</b>	.005	.004	.004	.004	.004	.004	.004	.004	.004	.004	.004	.003	.003	.003	.003	.002	.002
<b>3.0</b>	.004	.004	.003	.003	.003	.003	.003	.003	.003	.003	.003	.003	.002	.002	.002	.002	.001
<b>3.1</b>	.003	.003	.003	.003	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.001	.001	.001
<b>3.2</b>	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.002	.001	.001	.001	.001	.001	.001
<b>3.3</b>	.002	.002	.002	.002	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.000
<b>3.4</b>	.002	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.000	.000
<b>3.5</b>	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.000	.000	.000
<b>3.6</b>	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000
<b>3.7</b>	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
<b>3.8</b>	.001	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
<b>3.9</b>	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
<b>4.0</b>	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

**Table A.9 Critical Values for F Distributions**

		$\nu_1 = \text{numerator df}$									
		$\alpha$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.100	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	
	.050	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	
	.010	4052.20	4999.50	5403.40	5624.60	5763.60	5859.00	5928.40	5981.10	6022.50	
	.001	405,284	500,000	540,379	562,500	576,405	585,937	592,873	598,144	602,284	
2	.100	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	
	.050	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	
	.010	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	
	.001	998.50	999.00	999.17	999.25	999.30	999.33	999.36	999.37	999.39	
3	.100	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	
	.050	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	
	.010	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	
	.001	167.03	148.50	141.11	137.10	134.58	132.85	131.58	130.62	129.86	
4	.100	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	
	.050	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	
	.010	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	
	.001	74.14	61.25	56.18	53.44	51.71	50.53	49.66	49.00	48.47	
5	.100	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	
	.050	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	
	.010	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	
	.001	47.18	37.12	33.20	31.09	29.75	28.83	28.16	27.65	27.24	
$\nu_2 = \text{denominator df}$	.100	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	
	.050	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	
	.010	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	
	.001	35.51	27.00	23.70	21.92	20.80	20.03	19.46	19.03	18.69	
6	.100	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	
	.050	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	
	.010	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	
	.001	29.25	21.69	18.77	17.20	16.21	15.52	15.02	14.63	14.33	
7	.100	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	
	.050	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	
	.010	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	
	.001	25.41	18.49	15.83	14.39	13.48	12.86	12.40	12.05	11.77	
8	.100	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	
	.050	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	
	.010	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	
	.001	22.86	16.39	13.90	12.56	11.71	11.13	10.70	10.37	10.11	
9	.100	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	
	.050	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	
	.010	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	
	.001	21.04	14.91	12.55	11.28	10.48	9.93	9.52	9.20	8.96	
10	.100	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	
	.050	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	
	.010	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	
	.001	19.69	13.81	11.56	10.35	9.58	9.05	8.66	8.35	8.12	
11	.100	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	
	.050	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	
	.010	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	
	.001	18.64	12.97	10.80	9.63	8.89	8.38	8.00	7.71	7.48	

(continued)

**Table A.9 Critical Values for F Distributions (cont.)**

$\nu_1 = \text{numerator df}$										
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	1000
60.19	60.71	61.22	61.74	62.05	62.26	62.53	62.69	62.79	63.06	63.30
241.88	243.91	245.95	248.01	249.26	250.10	251.14	251.77	252.20	253.25	254.19
6055.80	6106.30	6157.30	6208.70	6239.80	6260.60	6286.80	6302.50	6313.00	6339.40	6362.70
605,621	610,668	615,764	620,908	624,017	626,099	628,712	630,285	631,337	633,972	636,301
9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.47	9.48	9.49
19.40	19.41	19.43	19.45	19.46	19.46	19.47	19.48	19.48	19.49	19.49
99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.48	99.49	99.50
999.40	999.42	999.43	999.45	999.46	999.47	999.47	999.48	999.48	999.49	999.50
5.23	5.22	5.20	5.18	5.17	5.17	5.16	5.15	5.15	5.14	5.13
8.79	8.74	8.70	8.66	8.63	8.62	8.59	8.58	8.57	8.55	8.53
27.23	27.05	26.87	26.69	26.58	26.50	26.41	26.35	26.32	26.22	26.14
129.25	128.32	127.37	126.42	125.84	125.45	124.96	124.66	124.47	123.97	123.53
3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.80	3.79	3.78	3.76
5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.70	5.69	5.66	5.63
14.55	14.37	14.20	14.02	13.91	13.84	13.75	13.69	13.65	13.56	13.47
48.05	47.41	46.76	46.10	45.70	45.43	45.09	44.88	44.75	44.40	44.09
3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.15	3.14	3.12	3.11
4.74	4.68	4.62	4.56	4.52	4.50	4.46	4.44	4.43	4.40	4.37
10.05	9.89	9.72	9.55	9.45	9.38	9.29	9.24	9.20	9.11	9.03
26.92	26.42	25.91	25.39	25.08	24.87	24.60	24.44	24.33	24.06	23.82
2.94	2.90	2.87	2.84	2.81	2.80	2.78	2.77	2.76	2.74	2.72
4.06	4.00	3.94	3.87	3.83	3.81	3.77	3.75	3.74	3.70	3.67
7.87	7.72	7.56	7.40	7.30	7.23	7.14	7.09	7.06	6.97	6.89
18.41	17.99	17.56	17.12	16.85	16.67	16.44	16.31	16.21	15.98	15.77
2.70	2.67	2.63	2.59	2.57	2.56	2.54	2.52	2.51	2.49	2.47
3.64	3.57	3.51	3.44	3.40	3.38	3.34	3.32	3.30	3.27	3.23
6.62	6.47	6.31	6.16	6.06	5.99	5.91	5.86	5.82	5.74	5.66
14.08	13.71	13.32	12.93	12.69	12.53	12.33	12.20	12.12	11.91	11.72
2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.35	2.34	2.32	2.30
3.35	3.28	3.22	3.15	3.11	3.08	3.04	3.02	3.01	2.97	2.93
5.81	5.67	5.52	5.36	5.26	5.20	5.12	5.07	5.03	4.95	4.87
11.54	11.19	10.84	10.48	10.26	10.11	9.92	9.80	9.73	9.53	9.36
2.42	2.38	2.34	2.30	2.27	2.25	2.23	2.22	2.21	2.18	2.16
3.14	3.07	3.01	2.94	2.89	2.86	2.83	2.80	2.79	2.75	2.71
5.26	5.11	4.96	4.81	4.71	4.65	4.57	4.52	4.48	4.40	4.32
9.89	9.57	9.24	8.90	8.69	8.55	8.37	8.26	8.19	8.00	7.84
2.32	2.28	2.24	2.20	2.17	2.16	2.13	2.12	2.11	2.08	2.06
2.98	2.91	2.85	2.77	2.73	2.70	2.66	2.64	2.62	2.58	2.54
4.85	4.71	4.56	4.41	4.31	4.25	4.17	4.12	4.08	4.00	3.92
8.75	8.45	8.13	7.80	7.60	7.47	7.30	7.19	7.12	6.94	6.78
2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.04	2.03	2.00	1.98
2.85	2.79	2.72	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.49	2.45	2.41
4.54	4.40	4.25	4.10	4.01	3.94	3.86	3.81	3.78	3.69	3.61
7.92	7.63	7.32	7.01	6.81	6.68	6.52	6.42	6.35	6.18	6.02
2.19	2.15	2.10	2.06	2.03	2.01	1.99	1.97	1.96	1.93	1.91
2.75	2.69	2.62	2.54	2.50	2.47	2.43	2.40	2.38	2.34	2.30
4.30	4.16	4.01	3.86	3.76	3.70	3.62	3.57	3.54	3.45	3.37
7.29	7.00	6.71	6.40	6.22	6.09	5.93	5.83	5.76	5.59	5.44

(continued)

**Table A.9 Critical Values for F Distributions (cont.)**

		$\nu_1 = \text{numerator df}$									
		$\alpha$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	.100	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	
	.050	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	
	.010	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	
	.001	17.82	12.31	10.21	9.07	8.35	7.86	7.49	7.21	6.98	
14	.100	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	
	.050	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	
	.010	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	
	.001	17.14	11.78	9.73	8.62	7.92	7.44	7.08	6.80	6.58	
15	.100	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	
	.050	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	
	.010	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	
	.001	16.59	11.34	9.34	8.25	7.57	7.09	6.74	6.47	6.26	
16	.100	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	
	.050	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	
	.010	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	
	.001	16.12	10.97	9.01	7.94	7.27	6.80	6.46	6.19	5.98	
17	.100	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	
	.050	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	
	.010	8.40	6.11	5.19	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	
	.001	15.72	10.66	8.73	7.68	7.02	6.56	6.22	5.96	5.75	
18	.100	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	
	.050	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	
	.010	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	
	.001	15.38	10.39	8.49	7.46	6.81	6.35	6.02	5.76	5.56	
19	.100	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	
	.050	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	
	.010	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	
	.001	15.08	10.16	8.28	7.27	6.62	6.18	5.85	5.59	5.39	
20	.100	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	
	.050	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	
	.010	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	
	.001	14.82	9.95	8.10	7.10	6.46	6.02	5.69	5.44	5.24	
21	.100	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	
	.050	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	
	.010	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	
	.001	14.59	9.77	7.94	6.95	6.32	5.88	5.56	5.31	5.11	
22	.100	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	
	.050	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	
	.010	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	
	.001	14.38	9.61	7.80	6.81	6.19	5.76	5.44	5.19	4.99	
23	.100	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	
	.050	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	
	.010	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	
	.001	14.20	9.47	7.67	6.70	6.08	5.65	5.33	5.09	4.89	
24	.100	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	
	.050	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	
	.010	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	
	.001	14.03	9.34	7.55	6.59	5.98	5.55	5.23	4.99	4.80	

(continued)

**Table A.9 Critical Values for F Distributions (cont.)**

$\nu_1 = \text{numerator df}$										
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	1000
2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.92	1.90	1.88	1.85
2.67	2.60	2.53	2.46	2.41	2.38	2.34	2.31	2.30	2.25	2.21
4.10	3.96	3.82	3.66	3.57	3.51	3.43	3.38	3.34	3.25	3.18
6.80	6.52	6.23	5.93	5.75	5.63	5.47	5.37	5.30	5.14	4.99
2.10	2.05	2.01	1.96	1.93	1.91	1.89	1.87	1.86	1.83	1.80
2.60	2.53	2.46	2.39	2.34	2.31	2.27	2.24	2.22	2.18	2.14
3.94	3.80	3.66	3.51	3.41	3.35	3.27	3.22	3.18	3.09	3.02
6.40	6.13	5.85	5.56	5.38	5.25	5.10	5.00	4.94	4.77	4.62
2.06	2.02	1.97	1.92	1.89	1.87	1.85	1.83	1.82	1.79	1.76
2.54	2.48	2.40	2.33	2.28	2.25	2.20	2.18	2.16	2.11	2.07
3.80	3.67	3.52	3.37	3.28	3.21	3.13	3.08	3.05	2.96	2.88
6.08	5.81	5.54	5.25	5.07	4.95	4.80	4.70	4.64	4.47	4.33
2.03	1.99	1.94	1.89	1.86	1.84	1.81	1.79	1.78	1.75	1.72
2.49	2.42	2.35	2.28	2.23	2.19	2.15	2.12	2.11	2.06	2.02
3.69	3.55	3.41	3.26	3.16	3.10	3.02	2.97	2.93	2.84	2.76
5.81	5.55	5.27	4.99	4.82	4.70	4.54	4.45	4.39	4.23	4.08
2.00	1.96	1.91	1.86	1.83	1.81	1.78	1.76	1.75	1.72	1.69
2.45	2.38	2.31	2.23	2.18	2.15	2.10	2.08	2.06	2.01	1.97
3.59	3.46	3.31	3.16	3.07	3.00	2.92	2.87	2.83	2.75	2.66
5.58	5.32	5.05	4.78	4.60	4.48	4.33	4.24	4.18	4.02	3.87
1.98	1.93	1.89	1.84	1.80	1.78	1.75	1.74	1.72	1.69	1.66
2.41	2.34	2.27	2.19	2.14	2.11	2.06	2.04	2.02	1.97	1.92
3.51	3.37	3.23	3.08	2.98	2.92	2.84	2.78	2.75	2.66	2.58
5.39	5.13	4.87	4.59	4.42	4.30	4.15	4.06	4.00	3.84	3.69
1.96	1.91	1.86	1.81	1.78	1.76	1.73	1.71	1.70	1.67	1.64
2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.93	1.88
3.43	3.30	3.15	3.00	2.91	2.84	2.76	2.71	2.67	2.58	2.50
5.22	4.97	4.70	4.43	4.26	4.14	3.99	3.90	3.84	3.68	3.53
1.94	1.89	1.84	1.79	1.76	1.74	1.71	1.69	1.68	1.64	1.61
2.35	2.28	2.20	2.12	2.07	2.04	1.99	1.97	1.95	1.90	1.85
3.37	3.23	3.09	2.94	2.84	2.78	2.69	2.64	2.61	2.52	2.43
5.08	4.82	4.56	4.29	4.12	4.00	3.86	3.77	3.70	3.54	3.40
1.92	1.87	1.83	1.78	1.74	1.72	1.69	1.67	1.66	1.62	1.59
2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.92	1.87	1.82
3.31	3.17	3.03	2.88	2.79	2.72	2.64	2.58	2.55	2.46	2.37
4.95	4.70	4.44	4.17	4.00	3.88	3.74	3.64	3.58	3.42	3.28
1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.65	1.64	1.60	1.57
2.30	2.23	2.15	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.84	1.79
3.26	3.12	2.98	2.83	2.73	2.67	2.58	2.53	2.50	2.40	2.32
4.83	4.58	4.33	4.06	3.89	3.78	3.63	3.54	3.48	3.32	3.17
1.89	1.84	1.80	1.74	1.71	1.69	1.66	1.64	1.62	1.59	1.55
2.27	2.20	2.13	2.05	2.00	1.96	1.91	1.88	1.86	1.81	1.76
3.21	3.07	2.93	2.78	2.69	2.62	2.54	2.48	2.45	2.35	2.27
4.73	4.48	4.23	3.96	3.79	3.68	3.53	3.44	3.38	3.22	3.08
1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.62	1.61	1.57	1.54
2.25	2.18	2.11	2.03	1.97	1.94	1.89	1.86	1.84	1.79	1.74
3.17	3.03	2.89	2.74	2.64	2.58	2.49	2.44	2.40	2.31	2.22
4.64	4.39	4.14	3.87	3.71	3.59	3.45	3.36	3.29	3.14	2.99

(continued)

**Table A.9 Critical Values for F Distributions (cont.)**

		$\nu_1 = \text{numerator df}$								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\nu_2 = \text{denominator df}$	.100	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89
	.050	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28
	.010	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22
	.001	13.88	9.22	7.45	6.49	5.89	5.46	5.15	4.91	4.71
	.100	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88
	.050	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27
	.010	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18
	.001	13.74	9.12	7.36	6.41	5.80	5.38	5.07	4.83	4.64
	.100	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87
	.050	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25
27	.010	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15
	.001	13.61	9.02	7.27	6.33	5.73	5.31	5.00	4.76	4.57
	.100	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87
	.050	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24
	.010	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12
	.001	13.50	8.93	7.19	6.25	5.66	5.24	4.93	4.69	4.50
	.100	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86
	.050	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22
	.010	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09
	.001	13.39	8.85	7.12	6.19	5.59	5.18	4.87	4.64	4.45
30	.100	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85
	.050	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21
	.010	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07
	.001	13.29	8.77	7.05	6.12	5.53	5.12	4.82	4.58	4.39
	.100	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79
	.050	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12
	.010	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89
	.001	12.61	8.25	6.59	5.70	5.13	4.73	4.44	4.21	4.02
	.100	2.81	2.41	2.20	2.06	1.97	1.90	1.84	1.80	1.76
	.050	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07
50	.010	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.19	3.02	2.89	2.78
	.001	12.22	7.96	6.34	5.46	4.90	4.51	4.22	4.00	3.82
	.100	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74
	.050	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04
	.010	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72
	.001	11.97	7.77	6.17	5.31	4.76	4.37	4.09	3.86	3.69
	.100	2.76	2.36	2.14	2.00	1.91	1.83	1.78	1.73	1.69
	.050	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97
	.010	6.90	4.82	3.98	3.51	3.21	2.99	2.82	2.69	2.59
	.001	11.50	7.41	5.86	5.02	4.48	4.11	3.83	3.61	3.44
200	.100	2.73	2.33	2.11	1.97	1.88	1.80	1.75	1.70	1.66
	.050	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93
	.010	6.76	4.71	3.88	3.41	3.11	2.89	2.73	2.60	2.50
	.001	11.15	7.15	5.63	4.81	4.29	3.92	3.65	3.43	3.26
	.100	2.71	2.31	2.09	1.95	1.85	1.78	1.72	1.68	1.64
	.050	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89
	.010	6.66	4.63	3.80	3.34	3.04	2.82	2.66	2.53	2.43
	.001	10.89	6.96	5.46	4.65	4.14	3.78	3.51	3.30	3.13

(continued)

**Table A.9 Critical Values for F Distributions (cont.)**

$\nu_1 = \text{numerator df}$										
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	1000
1.87	1.82	1.77	1.72	1.68	1.66	1.63	1.61	1.59	1.56	1.52
2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.84	1.82	1.77	1.72
3.13	2.99	2.85	2.70	2.60	2.54	2.45	2.40	2.36	2.27	2.18
4.56	4.31	4.06	3.79	3.63	3.52	3.37	3.28	3.22	3.06	2.91
1.86	1.81	1.76	1.71	1.67	1.65	1.61	1.59	1.58	1.54	1.51
2.22	2.15	2.07	1.99	1.94	1.90	1.85	1.82	1.80	1.75	1.70
3.09	2.96	2.81	2.66	2.57	2.50	2.42	2.36	2.33	2.23	2.14
4.48	4.24	3.99	3.72	3.56	3.44	3.30	3.21	3.15	2.99	2.84
1.85	1.80	1.75	1.70	1.66	1.64	1.60	1.58	1.57	1.53	1.50
2.20	2.13	2.06	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.73	1.68
3.06	2.93	2.78	2.63	2.54	2.47	2.38	2.33	2.29	2.20	2.11
4.41	4.17	3.92	3.66	3.49	3.38	3.23	3.14	3.08	2.92	2.78
1.84	1.79	1.74	1.69	1.65	1.63	1.59	1.57	1.56	1.52	1.48
2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.79	1.77	1.71	1.66
3.03	2.90	2.75	2.60	2.51	2.44	2.35	2.30	2.26	2.17	2.08
4.35	4.11	3.86	3.60	3.43	3.32	3.18	3.09	3.02	2.86	2.72
1.83	1.78	1.73	1.68	1.64	1.62	1.58	1.56	1.55	1.51	1.47
2.18	2.10	2.03	1.94	1.89	1.85	1.81	1.77	1.75	1.70	1.65
3.00	2.87	2.73	2.57	2.48	2.41	2.33	2.27	2.23	2.14	2.05
4.29	4.05	3.80	3.54	3.38	3.27	3.12	3.03	2.97	2.81	2.66
1.82	1.77	1.72	1.67	1.63	1.61	1.57	1.55	1.54	1.50	1.46
2.16	2.09	2.01	1.93	1.88	1.84	1.79	1.76	1.74	1.68	1.63
2.98	2.84	2.70	2.55	2.45	2.39	2.30	2.25	2.21	2.11	2.02
4.24	4.00	3.75	3.49	3.33	3.22	3.07	2.98	2.92	2.76	2.61
1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.48	1.47	1.42	1.38
2.08	2.00	1.92	1.84	1.78	1.74	1.69	1.66	1.64	1.58	1.52
2.80	2.66	2.52	2.37	2.27	2.20	2.11	2.06	2.02	1.92	1.82
3.87	3.64	3.40	3.14	2.98	2.87	2.73	2.64	2.57	2.41	2.25
1.73	1.68	1.63	1.57	1.53	1.50	1.46	1.44	1.42	1.38	1.33
2.03	1.95	1.87	1.78	1.73	1.69	1.63	1.60	1.58	1.51	1.45
2.70	2.56	2.42	2.27	2.17	2.10	2.01	1.95	1.91	1.80	1.70
3.67	3.44	3.20	2.95	2.79	2.68	2.53	2.44	2.38	2.21	2.05
1.71	1.66	1.60	1.54	1.50	1.48	1.44	1.41	1.40	1.35	1.30
1.99	1.92	1.84	1.75	1.69	1.65	1.59	1.56	1.53	1.47	1.40
2.63	2.50	2.35	2.20	2.10	2.03	1.94	1.88	1.84	1.73	1.62
3.54	3.32	3.08	2.83	2.67	2.55	2.41	2.32	2.25	2.08	1.92
1.66	1.61	1.56	1.49	1.45	1.42	1.38	1.35	1.34	1.28	1.22
1.93	1.85	1.77	1.68	1.62	1.57	1.52	1.48	1.45	1.38	1.30
2.50	2.37	2.22	2.07	1.97	1.89	1.80	1.74	1.69	1.57	1.45
3.30	3.07	2.84	2.59	2.43	2.32	2.17	2.08	2.01	1.83	1.64
1.63	1.58	1.52	1.46	1.41	1.38	1.34	1.31	1.29	1.23	1.16
1.88	1.80	1.72	1.62	1.56	1.52	1.46	1.41	1.39	1.30	1.21
2.41	2.27	2.13	1.97	1.87	1.79	1.69	1.63	1.58	1.45	1.30
3.12	2.90	2.67	2.42	2.26	2.15	2.00	1.90	1.83	1.64	1.43
1.61	1.55	1.49	1.43	1.38	1.35	1.30	1.27	1.25	1.18	1.08
1.84	1.76	1.68	1.58	1.52	1.47	1.41	1.36	1.33	1.24	1.11
2.34	2.20	2.06	1.90	1.79	1.72	1.61	1.54	1.50	1.35	1.16
2.99	2.77	2.54	2.30	2.14	2.02	1.87	1.77	1.69	1.49	1.22